

Ref. No. - OIL/CO/SE/2024-25/23

June 19, 2024

Listing Department
BSE Limited,
Floor 25, P J Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001

Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, C-1 Block G
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 530135

Symbol: OPTIEMUS

Subject: Newspaper Clippings regarding information of Loss of Share Certificates

Dear Sir(s),

With reference to captioned subject, this is to inform you that pursuant to Regulation 39(3) and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has issued an advertisement in respect of loss of Share Certificates today i.e. on June 19, 2024 in the following newspapers:

1. Financial Express (English) - All Editions
2. Jansatta (Hindi) - Delhi NCR Edition

A copy of the published advertisement is enclosed herewith.

Kindly take the same on your records.

Thanking You,

Yours truly,
For OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

VIKAS
CHANDRA
Digitally signed
by VIKAS
CHANDRA
Date: 2024.06.19
10:30:32 +05'30'

Vikas Chandra
Company Secretary & Compliance Officer

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN : L64200DL1993PLC054086

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

P.: 011-29840906-907 | Fax: 011-29840908 | www.optiemus.com

● WAITING FOR THE KILL

How to bell the big cat


METALS & SHORTLISTS SO FAR

At the time of this copy going to press, Indian agencies had bagged 1 Silver and 4 Bronze metals on Day 2, with 54 shortlists. This took India's total tally to 1 Gold, 2 Silvers and 6 Bronzes. McCann Worldgroup got the Gold metal on Day 1 for Buckaroo's 'Fit My Feet' campaign.



THE WINNERS

Agency	Gold	Silver	Bronze
McCann Worldgroup	1		1
Ogilvy India		1	2
Leo Burnett India			1
Early Man Film		1	1
VML India			1



Talented. "Clients ask agencies for details like salary and overhead costs, and profit margins before onboarding them — isn't

that absurd? You don't go to a restaurant and ask the chef's salary before you pay for your Bolognese!" Everything that's wrong with our industry — the hours, burnout, peanut salaries, can all be solved by pricing conversations where we see ourselves as equal to the client.

The next session I attended had a queue that would put Dada to shame — it was on the Return of Comedy by VML, Hellman's and SNL star Kenan Thompson. "85% of consumers say they are more likely to purchase a product after seeing a funny ad," they said — and

with the addition of 13 new categories at the Lions this year, it's safe to say the industry is ready to treat laughter as serious business. Humour tickles you, humour unifies you, for a brief moment in time it also disarms you.


Hellman's Mayo Cat, a funny no-brainer, was actually born out of a real problem to tackle food waste, which just goes on to show that purpose-led advertising can exist without black-and-white visuals and sarangi music.

My last panel for the day was the Indie Forum on the LBB Beach — executives from indie agencies across the world bearing what it means to be in the "people" business. With the looming irrelevance that we face in the wake of AI automation, Matt Reinhard of OKRP had a fun hack: "We use AI for every new business pitch. We go on to ChatGPT, and ask it to spit five ideas. And then we use those five as white space — if AI can think of it, anyone can, and we wouldn't even think that direction."

So, until the next time the industry congregates along the opal waters over rose and our collective quasi-artistic rage, advertising will very much still be a people's business, solving real problems with real human creativity.

Kohli is most valued celebrity; King Khan makes a comeback

WITH HIS OVERALL brand value soaring by nearly 29% to \$227.9 million, cricketer Virat Kohli has replaced actor Ranveer Singh as India's most valued celebrity in 2023. Singh slipped to the second spot with a brand value of \$203.1 million, while actor Shah Rukh Khan jumped to the third place from 10th, with a total brand value of \$120.7 million, according to Kroll's Celebrity Brand Valuation Report. Khan was valued at \$55.7 million in 2022. — Agencies



Fringes to Paris Olympics: How journeyman Balaji got his lucky break

NAMIT KUMAR
New Delhi, June 18

EARLIER THIS MONTH, Sriram Balaji, the World No. 62 and the third-highest ranked Indian doubles tennis player, arrived in Paris uncertain if he was playing the French Open at all. Typically fickle Parisian weather meant there were enough withdrawals by singles players in doubles category for Balaji, alongside Mexican partner Miguel Reyes-Varuela, to make it to the main draw.

He would leave the French capital with 3 solid Grand Slam matches under his belt, his best-

ever finish at a Major, and more importantly, ensuring his return ticket to Paris next month.

Balaji has been picked by World No. 4 Rohan Bopanna to partner him in the men's doubles category for the upcoming Paris Olympics, ousting the higher-ranked Yuki Bhambri to make it to his first Games.

Perhaps it is strengths specific to Balaji's game, perhaps it was the match he played against Bopanna in Round 3. Perhaps Bopanna's decision was premeditated. Yet, there is little doubt that Balaji's leap of faith, to arrive at Roland Garros even

though he was uncertain to play when he could have earned prize money and ranking points elsewhere, paid off in extraordinary fashion. "When I got there, we were sixth out (as alternates) so I was not sure we'll get into the draw," he said from London, where he has travelled to play a Challenger event on grass. "And as soon as we got into the draw, it was like a bonus for us. We didn't have anything to lose. We were just playing free and just focusing on every point by point and then it worked actually."

For players outside the very elite, they often go through the



Sriram Balaji will partner Rohan Bopanna in Paris

dilemma of travelling to Majors despite being uncertain they will even play. The financial burdens can be high for very little return. But Balaji, currently based out of Frankfurt, Germany, says he did not mind the uncertainty, being able to experience the Grand Slam atmosphere was enough. "There's no 'faith' or anything, but that's the risky you're supposed to take. If it works, it works..." he added.

Now 34, Balaji had been somewhat of a promising junior before his career tailed off due to injuries and typical malaise of making the tough transition to

the seniors. Even as he accepted his limitations and switched track to doubles, his parents continued to provide support. His may seem like the case of a typical tennis journeyman; this is essentially a sport that only does enough to support its top 100 players. But his run at the French Open and Olympics call-up has renewed faith.

It was the third-round match against Bopanna that showed many of Balaji's strengths on clay; while Bopanna will claim didn't sway his decision, it's hard to think it did not have any impact. Balaji is quite certain it

wasn't the turning point though. "No, no, no, it wasn't just the match. He also told me, one or two weeks before, he hinted that I'm one of the potential partners, me or Yuki," he said.

Balaji insists it was his results on slow clay at Challenger events, and his consistency. He elaborates on how playing styles may also be complementary, which may be why Bopanna opted to partner him instead of Bhambri. "Both of us have big serves, so hopefully we make the maximum use of it. And then Bops has big returns also, an overall big game," he said.

NMDC Limited
(A Government of India Enterprise)
(MATERIALS MANAGEMENT DEPARTMENT)
10-3-311/A, CASTLE HILLS, MASAB TANK, HYDERABAD - 500028 Telephone: 049-23536740, 23538713 to 23538721 Ext: 535 (CIN) - L13100TG19586Q001674
E-MAIL: kvprakash@nmdc.co.in; jvankatesan@nmdc.co.in

Open Tender Notice (E-Procurement Mode Only)
E-tenders are invited for following items from reputed manufacturers directly or through their dealers/accrédited agents through MSTC portal website <https://www.mstcecommerce.com/procure/>

Sl.	Tender No & Date	Description	Qty (No)	Pre Bid Meeting	Display & Sale of Tender Documents Period	Last date & Time for submission of offer
1	HQMM/2007-22/110000429/110000108/3/1100001660/30000206/1100001123/434 Dtd. 18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/HeadOffice/Material Management/1/24-25/ET/251)	Supply and Supervision of E & C of 56 Nos. 4" Top Hammer Drill along with 6 Yrs. 10000 Hrs. COST CAP, whichever is earlier.	06	27.06.2024 at 11:30 AM (IST)	FINAL: 11.07.2024 to 31.07.2024	31.07.2024 By 02.30 PM (IST)
2	HQMM/2012-23/30000225/110000168/1/1100001690/1700007154/433 Dtd. 18.06.2024 (MSTC Ref no: NMDC/HeadOffice/Material Management/1/24-25/ET/250)	Supply and Supervision of E & C of 04 Nos. 6" Diesel Driven Blast Hole Drill along with 6 Yrs/12000 Hrs. COST CAP, whichever is earlier.	04	27.06.2024 at 04:00 PM (IST)	FINAL: 11.07.2024 to 31.07.2024	31.07.2024 By 02.30 PM (IST)

Prospective bidders may visit our website: www.nmdc.co.in, CPP Portal <https://procure.gov.in>, <https://mstcecommerce.com> and may download the tender documents. Any corrigendum to the above tender notice will be uploaded on our website and MSTC e-portal only. GM (Materials)

Optimus OPTIUMS INFRACOM LIMITED
CIN: L64200DL1993PLC054086
Registered Office: K-20, Second Floor, Lalpat Nagar - II, New Delhi-110024
Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307
Website: www.optimus.com | E-mail: info@optimus.com | Ph: 011-29840906

PRESS ADVERTISEMENT
Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported as lost/ misplaced and the holder of such Share Certificates has applied to Company for the issue of Duplicate Share Certificates:

S. No	Folio No.	Name of Shareholder	Certificate No(s)	Distinctive No(s).	No. of Shares
1.	0000378	B K Aggarwal	23950-23992	2394101-2398400	4,300
Total					4,300

Any person(s) who has any claim(s) in respect of the above share certificates should lodge such claim(s) with the Company 'Optimus Infracom Limited' at its Corporate Office situated at D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307 or write at info@optimus.com within 15 days of the publication of this NOTICE, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue the Duplicate Share Certificates.

FOR OPTIUMS INFRACOM LIMITED
Date: 18th June, 2024
Place: Noida
Vikas Chandra
Company Secretary & Compliance Officer

PNB Finance and Industries Limited
CIN No.: L65929DL1947PLC001240; Website: www.pnbfinanceandindustries.com
Regd. Office: -1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Telephone: +91-730495375; E-mail: pnbfinanceandindustries@gmail.com

NOTICE OF THE 129th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION

1. Notice is hereby given that 129th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be convened on Wednesday, July 10, 2024 at 10:30 A.M. IST through Video Conferencing ("VC") facility only without the physical presence of the members at a common venue to transact the business as set out in the notice of the 129th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with circulars no. 20/2020, 02/2022 and 10/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PO-D-2/P/ CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred as "relevant circulars").

2. In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2023-24 have been sent to the members on June 18, 2024 whose email-IDs are registered with the depositories/Company as on June 14, 2024. This communication and the notice along with the Annual Report for 2023-24 are also available at Company's website: www.pnbfinanceandindustries.com and NDSL's website: <https://www.evoting.nsdl.com>.

3. The Register of Members and Share Transfers Books of the Company shall remain closed from July 04, 2024 to July 10, 2024 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

REMOTE E-VOTING

4. In accordance with the provision of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India, the Company has availed services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facility to its members. The members may note below with respect to the remote e-voting services as availed by the Company:

- The ordinary and special business, as set out in the Notice of the 129th AGM, will be transacted through voting by electronic means;
- Date and time of commencement of remote e-voting: July 06, 2024 (9:00 A.M.);
- Date and time of end of remote e-voting: July 09, 2024 (5:00 P.M.);
- The cut-off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e-voting system during the 129th AGM is July 03, 2024;
- Members may note that a) the remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-voting prior to AGM may participate in the AGM through VC facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-voting system during AGM; c) the members participating in the AGM and who had not cast their vote by remote e-voting, shall be entitled to cast their vote through e-voting system during the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting, participating in the AGM through VC facility and e-voting during the AGM.

5. Any person, who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM but before the cut-off date i.e. July 03, 2024, may cast their vote by following the instructions for e-voting as provided in the Notice convening the AGM, which is available on the website of the Company and NSDL. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-Voting then the existing user ID and password can be used to casting vote.

6. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, at the designated email id - gallery@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

For PNB Finance and Industries Limited
Sd/-
Shweta Saxena
Director & Company Secretary

Date: June 18, 2024
Place: New Delhi

XPRO INDIA LIMITED
CIN : L25209WB1997PLC085972
Registered Office : Barjora Meja Road, P.O. - Ghulgoria, Tehsil - Barjora, Dist. - Bankura, West Bengal - 722 202.
Tel.: 91-9775301701, Email : cosec@xproindia.com; Website : www.xproindia.com

Information regarding 27th Annual General Meeting

Shareholders may please note that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means on **Monday, July 29, 2024 at 10.30 a.m. IST**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the businesses set forth in the Notice of the AGM dated May 28, 2024.

In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company (Depository Participant). The Notice of the 27th AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will also be available on the Company's website at www.xproindia.com and on the website of the Stock Exchanges.

Manner of registering/updating e-mail addresses :

- For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested copy), AADHAAR (self-attested copy) and Form ISR -1 (available on the website of the Company) by email to Company (cosec@xproindia.com)/RTA (mt.helpdesk@linkintime.co.in).
- For Demat shareholders - please update your e-mail id and mobile number with your respective Depository Participant (DP).
- For Individual Demat shareholders - please update your e-mail ID and mobile number with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-voting and joining virtual meeting through Depository.

Manner of voting at the AGM :

- Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely or during the AGM on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system.
- The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the Shareholders through email after successfully registering their email addresses in the manner provided above.
- The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in the Notice of the AGM. The details will also be made available on the website of the Company.

Manner of registering mandate of receiving Dividend (if any) electronically : Shareholders are requested to update their complete bank details with their Depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company/RTA (where shares are held in physical mode) at cosec@xproindia.com / mt.helpdesk@linkintime.co.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name, folio number, bank details, self-attested copy of PAN card, cancelled cheque leaf and other applicable documents.

By order of the Board
Kamal Kishor Sewda
Company Secretary

Place : Kolkata
Dated : June 18, 2024

TVS Presents
RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness

2023 CALL FOR ENTRIES

Scan to apply

Log on to www.rngfoundation.com/awards

20 JUNE | Last Date 2024 of Registration

Associate Partner
PLUTUS IAS
UPSC / PCS

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the Certificate(s) for 150L bearing Equity Share certificates No(s)103608/371314/463103 and Distinctive No(s) 4972649 to 4972698 and 579041782 to 579041831 and 620202747 to 620202796 under the folio No. 10945151 of Larsen & Toubro Limited standing in the name (s) of Harish Katyal have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the Company to issue duplicate Certificate(s) for the said shares.

Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our Registrar, **KFin Technologies Limited**, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad-500032 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate(s).

Date : 18.06.2024 Name(s) of Shareholder(s) : PUNEET KATYAL
Place : New Delhi

आरबीएल बैंक लिमिटेड

प्रशासनिक कार्यालय प्रथम लेन, शाहपुरी, कोलकाता-46001
शाखा: बिल्डिंग नंबर 1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज III, नई दिल्ली-110020

दावारहित माल की सूचना

जबकि एडीएम गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित दिनांक 31.10.2023 के आदेश के अनुसार एसाएआरफाईएसआई अधिनियम 2002 के अनुसार "वाणिज्यिक दुकान संख्या 23, (भूतल) ब्लॉक-1, गंगा शोपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-29, नोएडा, पिला गौतम बुद्ध नगर, (पूर्वी) जिसका पता संख्या 22.74 वर्ग मीटर है, नोएडा प्राधिकरण द्वारा विधिवत आवंटित किया गया है और जो निम्नानुसार घिसा हुआ है: - उत्तर में: साइट के अनुसार, दक्षिण में: साइट के अनुसार, पूर्व में: साइट के अनुसार, पश्चिम में: साइट के अनुसार" वाली आवासीय संपत्ति आरबीएल बैंक के कब्जे में है और कानून के अनुसार वह नौजामी की प्रकृति में है।

संपत्ति पर उल्लेखित वस्तुओं की प्रकृति का दावा न किया गया मात्र पड़ा है, जिस पर बैंक कोई प्रचार नहीं है। संबंधित मालिक और/या हितधारक को 04 जुलाई 2024 को या उससे पहले दावा न किए गए मात्र को हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा माल को मालिक की लागत और परिणामों पर हस्ताक्षर/वकील को विक्रेता पर बेचा जा सकता है।

स्थान: नोएडा अधिकृत अधिकारी: आरबीएल बैंक लिमिटेड
दिनांक: 18/06/2024

वसुली अधिकरण कार्यालय-1

वसुली अधिकरण, देहरादून
पारस टॉवर, द्वितीय तल, माजरा निरंजनुपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून

आप वसुली व दिवालियापन अधिनियम 1993 के साथ पढ़ने हुए आयकर अधिनियम, 1981 के द्वितीय अनुसूची के नियम 53 के अन्तर्गत उद्योषोषण नोटिस/आरसी /208/2019 दिनांक: 30.04.2024

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स एम के ट्रेडर्स एवं अन्य

सेवा में,
सीडी नं. 1: मैसर्स एम के ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरशिप, कार्यालय पता: मोहल्ला- अफगाना किरतपुर, जिला- बिजौरा, उत्तर प्रदेश, प्रोप्राइटर: श्री मुबारिश खान खान।
सीडी नं. 2: मुबारिश जना खान पुत्र श्री अब्दुल सवूर खान, निवासी: मोहल्ला- अफगाना किरतपुर, जिला- बिजौरा, उत्तर प्रदेश।
सीडी नं. 3: मुस्तान सदात पुत्र श्री मुस्तान खान, निवासी: मोहल्ला- अफगाना किरतपुर, जिला- बिजौरा, उत्तर प्रदेश।
सीडी नं. 4: दिनेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी: मोहल्ला- चामान, किरतपुर, जिला- बिजौरा, उत्तर प्रदेश।

जबकि, ऋण वसुली ट्रिब्यूनल देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, जिन्होंने आवेदन बैंक (बैंको) / वित्तीय संस्थानों(ओं) का भुगतान करने के लिए ओए/ 348 /2018 में दिनांक 22.03.2019 का रिफररी सर्टिफिकेट जारी किया है। आवेदन का नाम, रुपये 41,83,712.00 (रुपये इकतालीस लाख तिरासी हजार सत्तार सौ बारह मात्र) के साथ पेंडेंट/लाइट और मरिथिया ब्याज @10.00% प्रति वर्ष साधारण दर वार्षिक ब्याज दिनांक 27.11.2018 की वसुली एवं लागत रूप 82,200/- (रुपये बयासी हजार दो सौ मात्र) तक एवं जबकि उक्त का भुगतान नहीं किया गया है, अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधोलिखित अचल/अचल सम्पत्ति के विक्रय का आदेश दिया गया है।

2. आपको एनफारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 11.06.2024 को प्रातः 10.30 बजे बिक्री की घोषणा तैयार करने और उसकी शर्तों को तय करने के लिए निर्धारित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में उक्त संपत्तियों या उसके किसी हिस्से से जुड़े किसी भी भार, दावों या देवदारियों को लाए।

सम्पत्ति का विवरण
बंधक सम्पत्ति स्थित मोहल्ला- अफगाना, जिला- बिजौरा, माप क्षेत्रफल 692.19 वर्ग मीटर, निर्माण के साथ सीमाएं- उत्तर: मुसुबख खान की सम्पत्ति, दक्षिण: 5 फीट चौड़ा रास्ता एवं तलपश्चात् श्री नवाब का मकान, पूर्व: नगर पालिका रोड, पश्चिम: मोहम्मद यूसूफ एवं श्री कफायत की सम्पत्ति।
अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 30.04.2024 से जारी।

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि र. 10/- (रुपये दस मात्र) प्रति की 200 इन्विटरी रोयर्स, प्रमाणपत्र सं. 93690 एवं 93694, विशिष्ट सं. 19039453-19039552 एवं 19039853-19039952 जो आयभार प्रॉटेस्ट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 3रा तल, सलेक्ट सिटीवाक, ए-3, इंडिरा ट्रस्ट सिटी सेक्टर, साकेत, नई दिल्ली, दिल्ली-110017 का है जो डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लि. के नाम में पंजीकृत है, गुप्त हो गया है। डालमिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लि. ने इंडिरा ट्रस्ट प्रमाण पत्र जारी करने के लिये कम्पनी को आवेदन दिया है। यदि उक्त शेयर प्रमाणपत्र के लिये किसी व्यक्ति का कोई दावा हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कम्पनी में ऐसे दावे दाखिल करें।

प्रतिष्ठित दर पर ई-निविदा आमंत्रित

करने के लिए प्रेष नोटिस
कार्यपालक अभियंता (सी), डाक स्थिति प्रमाण, नई दिल्ली भारत के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्य के लिए प्रतियोग्य दर (सीपीडीव्यूजी-7) पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है:

एन.आई.टी. संख्या: एन.आई.टी./ ईसीपीडीव्यूजी /2024-25/07
दिनांक: 18.06.2024
कार्य का नाम: पी.ओ. बिल्डिंग, मलकागंज, दिल्ली में एआरएमओ सहित विविध स्थिति कार्य।
अनुमानित लागत: रु. 3094969/-
बयाना सति: रु. 61900/-
पूरी होने की अवधि - 180 दिन
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय: 02.07.2024 को 15:00 बजे
बोली प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त किए जा सकते हैं।

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI
W.P. Cr. 1792/2022
BSES Yamuna Power Ltd. vs. Petitioner
Vs. Respondent-2
Address: 1653, Second Floor, Gali Sayedyan, Near Pahar Bhojala Darya Gang, New Delhi-110006
Whereas the above noted petitioner has presented petition which was listed before the Court on 03.05.2024 the Court ordered issuance of notice to you And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is again hereby issued that if you wish to defend the above mentioned petition you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Joint Registrar (Judicial) on 10.07.2024 at 11.00 AM. If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorised to act for you in the said petition on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said petition will be given and the same will be heard and determined ex parte in your absence.
Given under my hand and the seal of this Court, this the 28th day of May 2024
Sd/-
Assistant Registrar (Cr.)
For Registrar General

एचओएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: बल्डमिंग 3, बुटिद प्लू, 205ए, फ्लोर एरिना न, 7, गार्डनरसिटी बिल्डिङ्क, दिल्ली नगरपालिका, नई दिल्ली-110017
CIN: U65993DI2016PTC291377
सार्वजनिक सूचना
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एचओएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी प्रमाइसेस में, सी-3 वी, भू तल तथा प्रथम तल, किरण रोड, मैन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 से अपना शाखा कार्यालय प्लॉट नं. 31, 2रा एवं 3रा तल, ओम विहार, फेज-1, उत्तम नगर, मेट्रो प्लान नं. 702 के निकट, नई दिल्ली-110059 में स्थानांतरित कर रही है। सभी संबंधितों से आग्रह है कि उक्त सूचना का ध्यान रखें।
कृते, एचओएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: हस्ता/-
तिथि: 18 जून, 2024 प्राधिकृत अधिकारी

नोएडा, सेक्टर 12 (डीपी, 19347)
ईमेल: cb19347@canarabank.com
चलते निवेदनो विज्ञापन

नीचे वर्णित व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे सूचना खताओं में देयताओं का भुगतान करने में विफल रहे हैं। पंजीकृत डाक से उन्हें मेरी सूचनाएं/ डेलिवरी गई हैं। अतएव उनसे आग्रह है कि 6.7.2024 को या पूर्व देयताओं तथा अन्य प्रमाणों का भुगतान गरिची प्रतिभूतियों को छुड़ा दें अन्यथा बैंक को सम्प्रभु इच्छा पर आगे कोई भी सूचना दिचे विना 6.7.2024 या उसके बाद किसी सुविधाजनक तिथि को 4.00 बजे अप. में ऋणधारक को लागत पर बैंक के परिसर में उक्त प्रतिभूतियों को बिक्री कर दी जाएगी।

क्र.सं.	ऋण की तिथि	ऋण सं.	ऋणधारक का नाम एवं पता
1.	20.12.2023	128001416756	एकना गुप्ता, सीओ श्री देवीप कुमार गुप्ता ई-324, वेस्ट विनोद नगर, ईस्ट दिल्ली-110092

टिप्पणी: बकाया राशि में स्वयं ऋण के साथ ही अन्य ऋण/साख सुविधा के अंतर्गत पाटी की सभी देयताएं शामिल हैं।
तिथि: 18.6.2024 प्राधिकृत अधिकारी, केना बैंक, मो. : 8865098976

optemus ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड

CIN: L64200DL1999PLC054066
पंजीकृत कार्यालय: के-20, टुवरी मॉडर्न, हाजरात नगर - II, नई दिल्ली-110024
ऑप्टिमस कार्यालय: डी-34B, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307
वेबसाइट: www.optemus.com | ईमेल: info@optemus.com | फोन: 011-29840906

भरे विज्ञापन
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के खरी जानने की सूचना दी गई है और ऐसी शेयर प्रमाणपत्रों के धारक से इलेक्ट्रॉनिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है।

क्र. सं.	कोटिंग की संख्या	शेयरधारक का नाम	प्रमाणपत्र संख्या(ए)	विशेष संख्या(ए)	शेयरों की संख्या
L.	0000378	डी के अग्रवाल	23950-23992	2384101-2388400	4,300

कुल शेयरों की संख्या 4,300

कोई भी व्यक्ति जिसके पास उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संबंध में कोई दावा(ए) है उसे जॉइंट प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर उक्त उक्त उक्त के पते पर को ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के पता डी-34B, सेक्टर-63, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307 से लिखित उक्त कोर्पोरेट अधिकारी से ज्ञापन पत्रों पर 'info@optemus.com' पर लिखित लिखित कार डिलीवी की वारे पर विवरण नहीं किया जाएगा और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक शेयर प्रमाणपत्र जारी करके के लिए आगे बढ़ेगी।

ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड के लिए हस्ता/-
विकास धंधा
दिनांक: 18 जून, 2024
स्थान: नोएडा

विज्ञापन संख्या 55/2024

भारत सरकार
लोक उद्यम वयम बोर्ड
द्वि त्रैवेट बर्न एण्ड जेसप
कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (बीबीजे) में
निर्देशक (तकनीकी)
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदकों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई, 2024 (15.00 बजे तक) है। नौदल अधिकारियों द्वारा आवेदकों को लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवंटित करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2024 (15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट <https://pesb.gov.in> में लॉग इन करें

टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: एफ-26, फ्लोर पब्लिक, कॅम्पल रोड, नई दिल्ली-110001
सी.आई.एन: L19220ND1999PLC03001
वेबसाइट: www.aajtak.in, ईमेल: investors@ajtk.in
फोन: 0120-4906600, फैक्स: 0120-4325028
शेयर धारकों के लिए सूचना
विषय: कम्पनी के एनटीडी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरुखा निधि प्राधिकरण (आईडीपीएफ) में अंतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं सुरुखा निधि प्राधिकरण (लेखा अंकेक्षण, अंतरण एवं वापसी) विभाग, 2016 ("विनियम") के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार दी जा रही है।

इन नियमों के अनुसार वे सभी शेयर जिनके सन्दर्भ में निम्नागत सूचना प्रदान की जा रही है, शेयर धारकों को सूचना दी जाती है कि वे अपने शेयरों को निवेशक शिक्षा एवं सुरुखा निधि प्राधिकरण (आईडीपीएफ) में अंतरित कर दें, उनके नवीनीकरण उपलब्ध पते, 18-06-2024 दिनांकित पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर पूरे सूचित कर दिया है ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें। ऐसे शेयरधारकों के नाम, फोनियों नंबर या डीपी आईडी और क्लॉइड आइडी और अंतरित किए जाने वाले शेयर आदि संपूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् <https://aajtak.in/investor> पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। संबंधित शेयरधारकों से निवेदन है कि दावा नहीं किया जा सकता कि 01-10-2024 तक दावा कर दें अन्यथा वे शेयर 31-10-2024 या उससे पहले या कबित नियमों के अनुसार बढ़ाई गई तिथि तक आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे।

इन नियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं की पूरा करने हुए कम्पनी ने कबित नियमों के अनुसार जिन शेयरधारकों के शेयर आईडीपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किए जा रहे हैं, उनके नवीनीकरण उपलब्ध पते, 18-06-2024 दिनांकित पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर पूरे सूचित कर दिया है ताकि वे उचित कार्यवाही कर सकें। ऐसे शेयरधारकों के नाम, फोनियों नंबर या डीपी आईडी और क्लॉइड आइडी और अंतरित किए जाने वाले शेयर आदि संपूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् <https://aajtak.in/investor> पर उपलब्ध कर दिए गए हैं। संबंधित शेयरधारकों से निवेदन है कि दावा नहीं किया जा सकता कि 01-10-2024 तक दावा कर दें अन्यथा वे शेयर 31-10-2024 या उससे पहले या कबित नियमों के अनुसार बढ़ाई गई तिथि तक आईडीपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे।

शेयरधारक, जिनके पास वास्तविक रूप में (फैजिकल फॉर्म) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं, कृपया ध्यान रखें कि कम्पनी कोर्पोरेट प्रक्रिया से वे शेयर आईडीपीएफ को अंतरित करेगी। शेयरों के आईडीपीएफ प्राधिकरण में अंतरित होने के बाद कबित शेयरों के शेयर प्रमाणपत्र रह ही जाएंगे और उनकी कोई वैधता नहीं रहेगी।

कृपया ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा आईडीपीएफ फंड या आईडीपीएफ प्राधिकरण को पहले ही अंतरित, दावा या भुगतान नही किया जायेगा और अंतरित किए जाने वाले शेयरों समेत ऐसे शेयरों पर जमा सारे लेख, यदि हैं, शेयरधारक निवेशक शिक्षा आईडीपीएफ प्राधिकरण ("आईडीपीएफ") से वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया आईडीपीएफ की वेबसाइट अर्थात् <http://epf.gov.in/EPPA/refund.html> पर दी गई है। यदि कम्पनी में जमा दावारहित लेखों का दावा करना हो तो कृपया हमें सभी अपेक्षित दस्तावेजों समेत एक आवेदन पत्र भर कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), पदासीम शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, के नीचे उल्लिखित दायर पता अथवा कम्पनी के कोर्पोरेट कार्यालय - सेक्रेटरीय विभाग, टी.वी. टुडे लिमिटेड, इंडिया टुडे मीडियाविकास, एफसी-8, सेक्टर 16 ए, फिक्स सिटी, नोएडा, 201301, भारत में जमा कर दें। कबित आवेदन का 01-10-2024 या उससे पहले कम्पनी पहुंचाना आवश्यक है।

उपरोक्त मामले में अधिक जानकारी के लिए शेयरधारक कृपया कम्पनी के आरटीए, उपसीम शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020, ईमेल : admin@mcregistrars.com और दूरभाष सं. 011-41406149 या कम्पनी के पंजीकृत और कोर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करें।

इस सूचना में दी गई जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.aajtak.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर उपलब्ध कर दी गई है।

कृते टी.वी.टुडे नेटवर्क लिमिटेड
हस्ताक्षर
आशोक सरावत
समूह प्रमुख सेक्रेटरीयल एवं कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ4991
स्थान: नोएडा
तिथि : 18 जून, 2024

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

This is only an Advertisement for the information purpose and not for an offer document. Announcement, Not for Publication, distribution, or release, directly or indirectly in the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated Monday, May 6, 2024 ("Letter of Offer") filed with BSE Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed ("BSE") and Securities Exchange Board of India ("SEBI").

Our Company was incorporated on June 06, 1983, as a public limited company, in the name and style "Pioneer Leasing Company Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of Companies, Bombay, Maharashtra, India. Further, the name of our Company was changed from "Pioneer Leasing Company Limited" to "Banas Finance Limited" and a Certificate of Incorporation consequent upon the change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra, India on August 28, 1986. For details regarding changes in the name and registered office of our Company, please refer to the section titled "General Information" on page 38 of the Letter of Offer.

Corporate Identification Number: L65910MH1983PLC030142;
Registered Office: E-109, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053, Maharashtra, India;
Contact Number: +91-9152096140; Contact Person: Prajna Prakash Nalk, Company Secretary & Compliance Officer;
Email Address: banasfin@gmail.com; Website: www.banasfinance.wordpress.com

PROMOTERS OF THE COMPANY ARE GIRRAJ KISHOR AGRAWAL, TANU GIRRAJ AGRAWAL, HANUFUL INVESTRADE PRIVATE LIMITED, AND HUNNAR JEWELS LIMITED (FORMERLY KNOWN AS AGRAWAL BULLION LIMITED LIMITED).

RIGHTS ISSUE OF 4.80,46,232 (FOUR CRORES EIGHTY LAKHS FORTY SIX THOUSAND TWO HUNDRED AND THIRTY TWO) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹.10.00/- (RUPEES TEN ONLY) (EQUITY SHARES) EACH AT AN ISSUE PRICE OF ₹10.00/- (RUPEES TEN ONLY) PER EQUITY SHARE (ISSUE PRICE) ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 4804.62 LAKHS (RUPEES FORTY-EIGHT CRORE FOUR LAKHS SIXTY TWO THOUSAND THREE HUNDRED AND TWENTY ONLY) ON A RIGHT ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF BANAS FINANCE LIMITED ("COMPANY OR 'ISSUER") IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, APRIL 26, 2024 ("ISSUE). THE ISSUE PRICE AT PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 143 OF THE LETTER OF OFFER.

BASIS OF ALLOTMENT
The Board of Directors of Banas Finance Limited, wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Monday, 13 May 2024, And Closed On Thursday, 30 May 2024, with the last date for the market remuneration of the Rights Entitlement being Friday, May 17, 2024. The break-up of valid Applications received through ASBA (after technical rejections) is as under:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for		Equity Shares allotted	
	Number	%	Number	Value (₹.)	%	Number
Eligible Shareholders	1929	94.70	39986487	399864870.00	96.28	39986487
Renounees	108	5.30	1544954	15449540.00	3.72	1544954
Total	2037	100.00	41531441	415314410.00	100.00	41531441

#The total number of Rights Share allotted under the issue, whereas the total number of net subscriptions is 86.44% (Eighty six point Four Percent).

In accordance with the Letter of Offer and based on the basis of allotment being finalized on Wednesday, June 5, 2024, in consultation with the Issuer Company, the Registrar, and BSE, the Designated Stock Exchange for the Issue, the Company has on Wednesday, June 5 allotted 4,15,31,441 (Four Crores Fifteen Lakhs Thirty One thousand Four Hundred and Forty One) Fully paid-up Rights Shares to the successful applicants. We hereby confirm that all the valid applications considered for Allotment.

Basis of Allotment

Category	No. of valid CAFs (including ASBA applications) received		No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)		No. of Rights Equity Shares accepted and Allotted against Additional Rights Equity Shares applied for (B)		Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)	
	Number	%	Number	Number	Number	Number	Number	Number
Eligible Shareholders	1929	25470937	14515550	39986487			14515550	39986487
Renounees	108	1346609	198345	1544954			1544954	1544954
Total	2037	26817546	14713895	41531441			14713895	41531441

Intimations for Allotment/Refund/Rejection cases: The dispatch of allotment advice cum refund intimation and question for the rejection, as applicable, to the investors vide email has been completed on Thursday, June 13, 2024. The instructions to SCBS for the unbidding function in case of ASBA Applications were given on Wednesday, June 5, 2024. The Listing Application with BSE Limited was filed on Friday, June 7, 2024. The credit of Equity Shares in dematerialized form to respectively demat accounts of allottees had been completed with the Depositories on Thursday, June 13, 2024. Pursuant to the listing and trading approvals granted by BSE Limited, the Rights Shares Allotted in the Issue are to commence trading on BSE Limited from 19th day, June, 2024. In accordance with the SEBI circular bearing reference number /SEBI/HO/CFD/DIL2/CORP/2020/13 dated January 22, 2020, the request for the extinguishment of rights entitlement had been sent to the Depositories on Thursday, June 13, 2024.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON BSE LIMITED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DECLAMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distantly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE, nor does it certify the correctness or completeness of any contents of Letter of Offer. The investors are advised to refer to the Letter of Offer in the full text of the "Disclaimer Clause of BSE Limited" on the page 137 of the Letter of Offer.

REGISTRAR TO THE ISSUE
PURVA SHAREREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Panel East, Mumbai-400011, Maharashtra, India;
Contact Details: +91-22-99614132/ 022- 35220056
Website: www.purvashare.com
E-mail ID/ Investor Grievance ID: newsissue@purvashare.com
Contact Person: Ms. Deepali Dhun;
SEBI Registration Number: INR0000001112.
Validity: Permanent

ISSUER COMPANY
BANAS FINANCE LIMITED
E-109, Crystal Plaza, New Link Road, Andheri (West), Mumbai - 400053, Maharashtra, India;
Contact Details: +91-9152096140
Website: www.banasfinance.wordpress.com
E-mail: banasfin@gmail.com
Corporate Identification Number: L65910MH1983PLC030142

Investor may contact the Registrar to Issue/ Compliance Officer in case of any Pre-Issue/Post-Issue related problems such as non-subject of Allotment advice/demat credit etc. Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue or post-issue related matter. All grievances relating the ASBA process may be addressed the Registrar, with the copy of SCBSs giving full details such as name, address of the Applicant contact numbers), email address of the sole/first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and Designated Branch of the SCBSs where Application Form or the plain paper applications as the case may be, was submitted by the investors along with a photocopy of the acknowledgement slip (in case of ASBA process).

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

For, Banas Finance Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Girraj Kishor Agrawal
Executive Director
Director Identification Number: 00290959

Date: 19th day, June, 2024
Place: Mumbai

The Letter of Offer is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and Registrar at www.purvashare.com.in. Investor should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details of risk and for details relating to the same, please see the section entitled 'Risk Factor' beginning on page 23 of the Letter of Offer. The Rights Entitlements and the Rights Shares have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, resold, allotted, taken up, exercised, renounced, pledged, transferred or delivered, directly or indirectly within United States or to, or for the account or benefit of U.S. person (as defined in regulation except for this purposes, U.S. Persons include persons who would otherwise have been excluded from such term solely by virtue of rule 902(K)(1)(VIII)(B) or Rule 902(K)(2)), except pursuant to the exemption from or in transaction not subject to the registration requirement of U.S. Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Accordingly, the Rights Entitlement and Rights Shares were offered and sold (i) in offshore transaction outside in the United States to the non U.S. person in compliance with the Regulation S to the Existing Shareholder located in the Jurisdiction where such offer and the sale of Rights Shares is permitted under law of such jurisdiction, and (ii) in the United States to U.S. QIBs and are also Qualified Purchasers pursuant to applicable exemptions under the U.S. Securities Act and Investment Company Act. There will be no public offering in the United States. The Rights Shares and Rights Entitlements are not transferable.